

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी सत्यापन प्रपत्र (ग्रामीण)

* राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 की धारा-13(1) के अनुसार प्रत्येक पात्र गृहस्थी में, वरिष्ठ स्त्री, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम की न हो, राशनकार्ड जारी किये जाने के प्रयोजन के लिए, गृहस्थी की मुखिया होगी एवं धारा-1(2) के अनुसार जहाँ किसी गृहस्थी में किसी समय कोई स्त्री या 18 वर्ष से उससे अधिक आयु की स्त्री नहीं है, किन्तु 18 वर्ष से कम आयु की महिला सदस्य है, वहाँ गृहस्थी का वरिष्ठ पुरुष सदस्य राशनकार्ड जारी किये जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थी का मुखिया होगा और महिला सदस्य, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, ऐसे राशनकार्डों के लिए, ऐसे पुरुष सदस्य के स्थान पर, गृहस्थी की मुखिया बन जायेगी।

पात्र
गृहस्थी का
फोटो

भाग-एक

भाग-क

1. गृहस्थी की महिला मुखियों का नाम (हिन्दी में) (*उपरोक्त दिये गये प्रावधान के अनुसार)	श्रीमती / कुमारी / श्री	2. गृहस्थी के मुखियों का नाम (अंग्रेजी में) (*उपरोक्त दिये गये प्रावधान के अनुसार)	Smt/Km/Shri	
3. पिता का नाम (हिन्दी में)	श्री	4. पिता का नाम (अंग्रेजी में)	Shri	
5. पति का नाम (हिन्दी में)	श्री	6. पति का नाम (अंग्रेजी में)	Shri	
7. वर्ग	सातो 30जा०	अ०ज०जा० 30पि०व०	8. मोबाइल नं०*	+ 9 1
9. बैंक खाते का विवरण * (बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति संलग्न करें)	(a) बैंक का नाम (d) बैंक खाता संख्या	(b) बैंक शाखा	(c) IFSC कोड	
10. मुखिया का आधार कार्ड नं०*		अथवा आधार इनरोलमेंट नं०*	/ / / / / / / /	
11. मुखिया का EPIC No.		12. लिंग (म०/प०/अन्य)	13. पेशा/व्यवसाय	

भाग-ख

1. जन्म तिथि	/	/	/	वर्तमान आयु			वर्ष
2. वर्तमान निवास विवरण	(a) मकान संख्या (c) ग्राम पंचायत का नाम (e) तहसील का नाम			(b) ग्राम का नाम (d) विकास खण्ड का नाम (f) जिला का नाम			
3. स्थायी निवास विवरण	(a) मकान सं०. (c) सेक्टर/खण्ड/मोहल्ला (e) वार्ड सं० (g) नगर क्षेत्र का नाम			(b) बिल्डिंग/अपार्टमेंट/सड़क (d) लैण्डमार्क (f) ग्राम पंचायत/ब्लॉक का नाम (h) जिला का नाम			
4. वर्तमान उचित दर विक्रेता का नाम				5. परिवार की कुल वार्षिक आय *			
6. गैस कनेक्शन की स्थिति	हैं	नहीं		7. गैस कनेक्शन का प्रकार	सिलेण्डर	पाइपलाइन	
8. गैस कनेक्शन की सं०				9. गैस एजेन्सी का नाम			
10. गैस कम्पनी का नाम				11. ई-मेल का पता			
12. परिवार का विवरण -							

क्र० सं०	सदस्य का नाम (हिन्दी में)	पिता/पति का नाम (हिन्दी में)	लिंग	मुखिया से सम्बन्ध	जन्म तिथि (dd/mm/yyyy)	आधार सं०	सदस्य की कुल वार्षिक आय
1					--/--/--		
2					--/--/--		
3					--/--/--		
4					--/--/--		
5					--/--/--		
6					--/--/--		
7					--/--/--		
8					--/--/--		

मुखिया/वरिष्ठ परिवार सदस्य के हस्ताक्षर/निशानी अँगूठा

भाग—दो *

निष्कासन के आधार (एक्सक्लूजन क्राइटरिया)

1. क्या आयकर दाता है ?	हाँ	नहीं	
2. परिवार में चार पहिया वाहन है ?	हाँ	नहीं	
3. परिवार में ड्रेक्टर है ?	हाँ	नहीं	
4. परिवार में हारवेस्टर है ?	हाँ	नहीं	
5. परिवार में ए०सी० है ?	हाँ	नहीं	
6. परिवार में ५के०वी०२० या उससे अधिक का जनरेटर है ?	हाँ	नहीं	
7. परिवार के समस्त सदस्यों के पास कुल उपलब्ध सिचित भूमि (एकड़ में)	हाँ	नहीं	
8. परिवार के पास कुल उपलब्ध शस्त्र लाइसेंसों की संख्या			

इक्स्क्लूजन क्राइटरिया (यदि निष्कासन आधार के अन्तर्गत न आते हो)।—

1. क्या व्यक्ति या उनके परिवार निम्न में से हैं —	हाँ	नहीं	
क. भिक्षावृत्ति करने वाले	हाँ	नहीं	
ख. घरेलू काम-काज करने वाले	हाँ	नहीं	
ग. जूते-चप्पल की गरमत करने वाले	हाँ	नहीं	
घ. फेरी लगाने वाले / खोमचे वाले / रिक्षा चालक आदि	हाँ	नहीं	
च. कुछ रोग / कैंसर / एड्स से पीड़ित	हाँ	नहीं	
छ. अनाथ / माता-पिता विहीन बच्चे	हाँ	नहीं	
ज. स्वच्छकार	हाँ	नहीं	
झ. दैनिक वेतनभोगी मजदूर यथा — कुली, पल्लेदार आदि	हाँ	नहीं	
2. भूमिहीन मजदूरों के परिवार	हाँ	नहीं	
3. गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार (राजस्व विभाग के अद्यावधिक आय प्रमाण-पत्र के आधार पर)	हाँ	नहीं	
4. परित्यक्त महिलायें	हाँ	नहीं	
5. परिवार जिनका मुखिया निराश्रित महिला, विकलांग अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है एवं इस परिवार में कोई अन्य बालिग पुरुष नहीं है।	हाँ	नहीं	
6. आवासहीन परिवार एवं ऐसे परिवार जिनके रायमित्र में 30 वर्गमी० क्षेत्रफल तक के ऐसे कच्चे आवास हों जो उनकी निजी भूमि पर हों तथा जिनमें वे स्वयं निवास करते हों।	हाँ	नहीं	

* आवश्यक (Compulsory) प्रविष्टि

मुखिया / वरिष्ठ परिवार सदस्य के हस्ताक्षर / निशानी अँगूठा

केवल सत्यापनकर्ता अधिकारी / कर्मचारी के उपयोग हेतु

चेक लिस्ट:

1. परिवार की मुखिया की फोटो	हाँ	नहीं	
2. वैक पासबुक के पृथम पृष्ठ की प्रति	हाँ	नहीं	
3. आधार कार्ड की कॉपी	हाँ	नहीं	
4. मुखिया समेत परिवार के समस्त सदस्यों की फोटो	हाँ	नहीं	

नोट — आवश्यकता अनुरूप प्रविष्टि हेतु अतिरिक्त पृष्ठ संलग्न किया जा सकता है।

सत्यापनकर्ता अधिकारी / कर्मचारी के हस्ताक्षर
पदनाम —
मोबाइल नं० —